



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

14 ज्येष्ठ 1934 (श0)  
(सं0 पटना 240) पटना, सोमवार, 4 जून 2012

---

अधीक्षक का कार्यालय

पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना

निविदा सूचना

सं0 7721—पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना में हितों की अभिव्यक्ति से संबंधित ट्रौली सेवा व्यवस्था हेतु मुहरबंद एवं टंकित निविदा, निविदा प्रकाशन की तिथि से 21 दिनों के अन्दर निबंधित डाक/ स्पीड पोस्ट के द्वारा आमंत्रित किया जाता है। इस संबंध में बिस्तृत जानकारी अधीक्षक कार्यालय से निविदा प्रकाशन के पश्चात सम्पर्क स्थापित कर कार्यालय समायावधि में प्राप्त कर सकते हैं। इस निविदा संबंधित सभी जानकारी वेब साईट ([www.prd.bihar.gov.in](http://www.prd.bihar.gov.in)/[www.pmch.in](http://www.pmch.in)) पर भी देखा जा सकता है।

पटना

दिनांक 2 जून 2012

(ह0) अस्पष्ट,

अधीक्षक।

#### निविदा का कार्य क्षेत्र एवं संख्या

ट्रौली सेवा—आई0जी0सी0सी0, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, पटना के मुख्य द्वार पर दस (10) ट्रौली, /शल्य— अर्थो आकस्मिकी में चार (4) ट्रौली तथा औषधि आकस्मिकी में चार (4) ट्रौली एवं लेबर रूम में दो (2) ट्रौली (प्रत्येक ट्रौली पर तीनों पॉली में दो-दो कर्मी सहित) अर्थात आई0जी0सी0सी0 में कुल 108 (एक सौ आठ) कर्मी एवं लेबर रूम में कुल दो (02) ट्रौली (बारह कर्मी सहित) व्यवस्था करना होगा। आई0जी0सी0सी0 के मुख्य द्वार पर एवं लेबर रूम के मुख्य द्वार पर कार्यरत ट्रौली कर्मी आये हुये मरीजों को आकस्मिकी/लेबर रूम के अन्तर्गत जॉच की

सभी प्रक्रिया अपनाते हुए संबंधित विभाग/वार्ड में ले जायेंगे।आई0जी0सी0सी0 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रौली कर्मी स्थानांतरित मरीजों को रोगी वाहन तक एवं संबंधित विभाग के वार्ड में पहुंचाएंगे।

### निविदा की शर्त

- (1) निविदा दो प्रकार की होगी। (क) तकनिकी एवं (ख) वित्तीय निविदा।
- (2) निविदा मुहरबंद लिफाफे में मूल एवं द्वितीय प्रति स्पष्ट अंकित करते हुए देना होगा। तकनिकी निविदा में निविदा शर्त के अनुकूल सभी प्रमाण प्रमाण-पत्रों की अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं अग्रधन संलग्न करना होगा। वित्तीय निविदा में सिर्फ नियमानुसार दर अंकित करना होगा। दोनों निविदा में अलग-अलग लिफाफे में विषय के साथ तकनिकी एवं वित्तीय निविदा स्पष्ट रूप से अंकित करना होगा।
- (3) निविदा कम्प्यूटर से टंकित होना चाहिए, हस्तलिखित निविदा तथा निविदा में किसी प्रकार का कटिंग एवं ओभर राईटिंग मान्य नहीं होगा। निविदा सिर्फ निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से प्राप्त किये जायेंगे। किसी भी अन्य स्रोत से प्राप्त निविदा या विलम्ब से प्राप्त निविदा स्वीकृत नहीं किये जायेंगे।
- (4) निविदादाता को श्रम विभाग से निबंधित होना चाहिए। निबंधित श्रमिकों की संख्या आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए।
- (5) सर्विस टैक्स (सेन्ट्रल एक्साईज डिविजन) में निबंधित होना होगा।
- (6) बिहार वाणिज्य-कर में निबंधित होना चाहिए एवं बिहार वाणिज्य-कर विभाग का अद्यतन अनापति प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (7) निविदादाता को कार्यपालक दंडाधिकारी से शपथ-पत्र देना होगा की किसी संस्थान द्वारा ऐजेंसी को ब्लैक लिस्टेट नहीं किया गया है तथा उनके विरुद्ध किसी तरह के (सिविल या क्रिमिनल) न्यायिक प्रक्रिया लम्बित नहीं है, तथा न्यायालय द्वारा दंडित नहीं हुए हैं।
- (8) निविदा के साथ 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र का) रिफन्डेबल बैंक ड्राफ्ट जो अधीक्षक पी0एम0सी0एच0, पटना के पदनाम से प्रतिभुत हो तकनिकी निविदा में संलग्न करना होगा।
- (9) निविदादाता को ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0 में निबंधित होना चाहिए।
- (10) सभी ट्रौली आवाज रही होना चाहिए उस पर 1.5 इंच(डेढ़ इंच) डनलप कुशन तथा साफ बेड सीट रहना चाहिए। डिटैचेबुल टॉप होना चाहिए।
- (11) निविदा के साथ संलग्न सभी अनुलग्नकों को पृष्ठांकित कर अग्रसारण पत्र पर उल्लेखित करते हुए प्रमाणित करना होगा।
- (12) प्रथम दरवाले निविदादाता अगर किसी कारणवश कार्य नहीं करते हैं या हटाया जाता है तो इच्छुक द्वितीय/तृतीय निविदादाता से प्रथम दर पर कार्य लिया जायेगा।
- (13) निविदादाता को 1,000 शय्या वाले अस्पताल में कार्य करने का अनुभव प्रमाण-पत्र संलग्न करना होगा।
- (14) निविदा स्वीकृत होने के पश्चात ट्रौली मैन की उम्र सीमा कम से कम 20 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होने से संबंधित प्रमाण-पत्र देना होगा तथा उनका वर्दी एवं परिचय-पत्र कर्मी को देना होगा। एक कर्मी एक दिन में आठ घंटा ही कार्य करेंगे।
- (15) पी0एम0सी0एच0, पटना के लिए कुल 20 ट्रौली एवं तीनो पाली के लिए 120 कर्मी होंगे।
- (16) निविदादाता को आवासीय प्रमाण-पत्र एवं चरित्र प्रमाण-पत्र निविदा के साथ संलग्न करना होगा।

### वित्तीय निविदा

- (1) वित्तीय निविदा में श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर एवं नियमानुसार ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0, सर्विस टैक्स एवं सर्विस चार्ज पर दर अंकित करना होगा। साथ ही ट्रौली सहित दर अंकित करना होगा।
- (2) वित्तीय निविदा में एक से अधिक दर अनुमान नहीं होंगे।
- (3) क्रय समिति में तकनिकी निविदा के स्वीकृति के पश्चात ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।
- (4) क्रय समिति/अधीक्षक, पी0एम0सी0एच0, पटना किसी भी निविदा को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित होगा।
- (5) किसी भी विवाद के लिए न्यायिक क्षेत्र पटना होंगे।

अधीक्षक,  
पटना मेडिकल कालेज अस्पताल।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 240-571+10-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>